IFL ENTERPRISES LIMITED

CIN: L74110DL2009PLC186958

Registered Office: C-110 G/F Bhola Nath Nagar, Shahdara Delhi – 110032 India **Corporate Office:** A-607, Prahladnagar Trade Center Radio Mirchi Road, Vejalpur,

Ahmedabad-380015 Gujarat India

Tel: 7990080239; e-mail id: Iflenterprice3@gmail.com

Website: www. iflenterprises.com

Date: 26th August, 2023

To,

The Manager,	Symbol: IFL		
BSE Limited,	Scrip Code: 540377		
Phiroze Jeejeebhoy Towers,			
Dalal Street, Mumbai – 400001			

Subject: <u>Intimation under Regulation 47(3) of SEBI (LODR) Regulations, 2015 for publication of notice of Annual General Meeting and e-voting details in newspaper.</u>

Dear Sir/Ma'am,

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration Rules), 2014, as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015 and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing e-voting facility to the Members to cast their votes on all the resolutions set out in the Notice convening the <u>Annual General Meeting</u> (AGM). The Annual Report for the Financial Year 2022-23 has been dispatched to all members on <u>Thursday</u>, 24th <u>August</u>, 2023 whose email addresses are registered with the Company/Depository Participant(s).

Pursuant to <u>Rule 20(4)(V) of Companies (Management and Administration) Rules, 2014</u> as amended by the Companies (Management and Administration) Amendment Rules, 2015, the Company has published an advertisement in "<u>Financial Express</u>" (English) and "<u>Jansatta</u>" (Hindi) newspaper dated <u>26th August</u>, <u>2023</u> regarding dispatch of Annual Report, Notice of AGM and other documents.

Pursuant to <u>Regulation 47(1)(d)</u> read with <u>Regulation 47(3)</u> of the <u>SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements)</u> Regulations, 2015, we are hereby enclosing newspaper advertisement regarding Notice of AGM of the Company as published in the "<u>Financial Express</u>" (English) and "Jansatta" (Hindi) newspaper dated <u>26th August</u>, 2023.

Thanking You, Yours Faithfully, For IFL Enterprises Limited

Samad Digitally signed by Samad Ahmed Khan Date: 2023.08.26 14:10:46 +05'30'

Samad Ahmed Khan

Director DIN: 09527456

Encl: As above

FINANCIAL EXPRESS

DAY AFTER XI-MODI TALKS

China silent on any LAC agreement



Preparations at the G20 summit venue, Bharat Mandapam, in New Delhi, Friday. ABHINAV SAHA

other

shared interest".

"candid and in-depth

exchange of views on current

China-India relations and

questions

In a statement put out on

the Chinese foreign ministry

website, in a Q&A format, the

spokesperson also said, "The

two sides should bear in mind

the overall interests of their

properly the border issue so as

to jointly safeguard peace and

tranquillity in the border

region." This statement was

released in the early hours of

Friday, after Foreign Secretary

Vinay Mohan Kwatra had

briefed journalists about the

conversation on the sidelines

China's statement is quali-

tatively different from that of

India. While New Delhi talked

about the agreement to work

towards disengagement, Bei-

jing reiterated its oft-repeated

line of keeping the border

issue and the bilateral ties sep-

arate, and that the border issue

should not impact the

Prime Minister's engage-

ments during the BRICS Sum-

mit in Johannesburg, Kwatra

had confirmed that a conver-

sation between Prime Minis-

ter Modi and President Xi took

place on the sidelines of

Name of works

1. Fixing of RCC fencing and beautification of park at

Ghitorni STP. 2023_DJB_246557_1

ceinsys

SSUED BY P.R.O. (WATER)

Advt. No. J.S.V. 103 (2023-24)

Briefing reporters on the

bilateral ties.

the Summit.

of the BRICS Summit.

SHUBHAJIT ROY New Delhi, August 25

HOURS AFTER INDIA said Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping had "agreed" to "direct their relevant officials to intensify efforts at expeditious disengagement and deescalation" of troops along the Line of Actual Control, Beijing bilateral relations and handle

gave a different account of the

meeting as it did not mention

any agreed outcomes. The Chinese foreign ministry spokesperson did not refer to any agreement, and said President Xi "stressed that improving China-India relations serves the common interests of the two countries and peoples, and is also conducive to peace, stability and development of the world and the region".

Beijing also said that the conversation took place at the request of Prime Minister Modi. Indian officials were quick to rebut this and said there was a pending request from the Chinese side for a bilateral meeting.

The two leaders, however, had an informal conversation in the Leaders Lounge during **BRICS** Summit, sources said. The Chinese foreign ministry said that the two leaders spoke at Prime Minister Modi's request and had a

On request, **SC** moves Manipur cases with **CBI to Assam**

ANANTHAKRISHNAN G New Delhi, August 25

THE SUPREME COURT Friday moved Manipur's violencerelated cases being probed by the CBI to neighbouring Assam and asked the Chief Justice of Gauhati High Court to nominate one or more judicial officers in Guwahati to deal with the production and remand of the accused in these cases

Directions to this effect were given by the bench of Chief Justice of India DY Chandrachud and Justices J B Pardiwala and Manoj Misra following a request from Solicitor General Tushar Mehta who appeared for the Centre and State of Manipur.

Mehta told the bench that 27 cases have been transferred to the CBI. He said some of these cases may be triable by a magistrate and some by a sessions judge.

"Instead of troubling the judges in Manipur, where there might be some issue of the judge belonging to a tribe etc., the suggestion is that one sessions judge may be designated by the Chief Justice of Gauhati as Assam is a border state and there

is connectivity facility," he said. "If this request is accepted, the issues of production, custody of accused etc. would arise. The concern of CBI is that in most parts of Manipur, the situation now is normal, but there may be security issues if we have to transfer (the accused) physically for the purpose of production etc. So that may be permitted through virtual mode. And if an accused is to be kept in judicial custody, that can be in Manipur even though the judge is in Assam," Mehta said.

financialexp.epapr.in

Place: Nagpur

Date: 26/08/2023

India, Greece elevate ties to strategic level

PRESS TRUST OF INDIA Athens, August 25

INDIA AND GREECE on Friday elevated their ties to strategic partnership, vowed to double bilateral trade by 2030 and agreed to firm up a migration and mobility pact soon, during wide-ranging talks between Prime Minister Narendra Modi and his Greek counterpart Kyriakos Mitsotakis.

Modi, who arrived here from Johannesburg in the first visit to Greece by an Indian prime minister in 40 years, said both sides decided to expand cooperation in areas of defence and security, infrastructure, agriculture, education and new and emerging technologies.

In reflection of their growing congruence in areas of defence and security, the two sides also agreed to have an institutional dialogue framework at the level of National Security Advisors besides vowing to strengthen defence industrial cooperation.

Flanked by Mitsotakis, Modi said in his media statement that both India and Greece support diplomacy and dialogue to resolve the Ukraine crisis, adding both sides have "excellent coordination" on geopolitical, international and regional issues including that of the Indo-Pacific.

"This is the first visit by an Indian prime minister to Greece after a gap of 40 years. Still, neither the depth of our relations has diminished, nor has there been any decrease in the warmth of our relations." he said. "Therefore, today the prime

minister and I have decided to

take the India-Greece partner-

ship to a 'strategic' level," he



the Order of Honour by President of Greece Katerina Sakellaropoulou, in Athens, on Friday

will strengthen our strategic partnership by expanding our cooperation in the fields of defense and security, infrastructure, agriculture, education, new and emerging technology, and skill development," Modi said. On his part, Mitsotakis, welcoming Modi, said "today, the most populous, largest democracy on the planet is coming to the first democracy on earth." He said Greece is very

India to strategic partnership, adding both sides are ready to "walk side by side to deal with various challenges, especially in a period of international turmoil and war in Ukraine events that make it even more imperative to observe the UN Charter".

Mitsotakis said both sides

pleased to upgrade its ties with

are fully united in the goal of maintaining maritime security and the need for adherence to the Convention on the Law of the Sea as it is crucial in view of concerns over situation in the Eastern Mediterranean and the Indo-Pacific.

Rajkiya Engineering College

Agra Road, Mainpuri-205119

Mob. +917081066665

Assistant

Registrar-01

DIRECTOR

अमृत महोत्सव

Last date/ time of

receipt of tender

through

up to 3:00 P.M.

EX. ENGINEER (C) PLANT SDW S/E

आज़ादीका

e-mail: director.gecm@gmail.com Website: recmainpuri.in

Advertisement No.:- 09/Advt./RECM/2023 Dated-26/08/2023

Appointment Corrigendum

In reference to Advertisement No.: 08/Advt./RECM/2023 Dated

04/08/2023 for the Non-Teaching posts (Workshop

Superintendent-01, Registrar-01, Programmer Grade-1 -01

Deputy Librarian-01), the **last date for submission of applica-**

For qualifications and other details visit institute website:

Estimated Cost | Date of release

of tender in

E- procurement

officer-01,

www.recmainpuri.in.

DELHI JAL BOARD: GOVT. OF NCT OF DELHI

OFFICE OF THE ADDITIONAL CHIEF ENGINEER (P)-3

EXECUTIVE ENGINEER (CIVIL) PLANT SDW S/E

SRINIWASPURI: NEW DELHI: 110065

*Further detail in this regard can be seen at https://govtprocurement.delhi.gov.in/nicgep/app

Press N.I.T. No. 07 (2023-24)

"STOP CORONA; Wear Mask, Follow Physical Distancing, Maintain Hand Hygiene"

Ceinsys Tech Limited

E-mail: cs@ ceinsys.com, Website: www.ceinsys.com

Corporate Identity Number (CIN): L72300MH1998PLC114790

Registered Offce: 10/5, I.T. Park, Nagpur - 440022 MH, India.

tion form (extended) is 09/09/2023 (05:00 PM)

"We have decided that we

The Greek prime minister said having a direct air connectivity between India and Greece was also discussed as he highlighted the "great

opportunities" in tourism.
In his remarks, Modi said the two sides also discussed mutual cooperation in the field of counter-terrorism and cyber security. An agreement on agricultural cooperation was also inked following the talks.

The discussions covered digital payments, shipping, pharma, tourism, culture, education and people to people ties. The two leaders also deliberated on regional and multilateral issues, including the European Union, Indo-Pacific and the Mediterranean, and called for respect of international law, sovereignty and territorial integrity, according to the Ministry of External Affairs

EXPLORER ON THE MOON



A video grab of the Moon rover after it rolled out of the Chandrayaan-3 lander on the lunar surface. The video was released by ISRO on Friday.

Pawar says no split in NCP, Ajit its leader; denies later

PRESS TRUST OF INDIA Pune, August 25

HOURS AFTER ASSERTING that there was no split in the Nationalist Congress Party (NCP) and Maharashtra Deputy Chief Minister Ajit Pawar is its leader, party chief Sharad Pawar on Friday claimed that he did not make any such statement.

Talking to reporters at his hometown Baramati in Pune district in the morning before

leaving for Kolhapur to address a rally, Pawar said some leaders have left the NCP by taking a "different political stand", but it cannot be termed as a split.

Ajit Pawar and eight other NCP MLAs joined the Eknath Shinde-led Shiv Sena-Bharatiya Janata Party (BJP) government in the state on July 2, which created a split in the Sharad Pawar-founded party. When asked about his daughter and NCP working

president Supriya Sule's

remark that there is no split in the party and that Ajit Pawar is its leader, Sharad Pawar said, "Yes...there is no dispute about it." As his remarks made in

Baramati created a flutter, the former Union minister clarified in Satara a few hours later that he did not say so. "I am not saying that he is our leader. It is okay for Supriya (Sule) to say that. She is his (Ajit Pawar's) younger sister. There is no need to draw political meaning out of it," he said.

GNA **GNAAXLES LIMITED**

CIN: L29130PB1993PLC013684

Garha Road Jalandhar 144001. Tel No.: +91-181-4630477, Fax: +91-181-4630477 E-mail: gjain@gnagroup.com; Website: www.gnagroup.com,

NOTICE FOR RECORD DATE

Notice is hereby given that pursuant to section 91 of the Companies Act, 2013 and Regulation 42 and 47 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015 and other applicable provisions, if any, Record Date for ascertaining the names of the equity shareholders entitled to Bonus Shares, in the ratio of 1:1 has been set as September 2, 2023.

The information is also available on the websites of BSE Limited and NSE Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com

Date: August 25, 2023 Place: Mehtiana

For G N A Axles Limited Gourav Jain Company Secretary

SKIPPER

CIN: L40104WB1981PLC033408 Registered Office: 3A, Loudon Street, Kolkata - 700 017 Phone: (033) 2289 2327/5731, Fax: (033) 2289 5733 Email: investor.relations@skipperlimited.com Website: www.skipperlimited.com

NOTICE OF 42ND ANNUAL GENERAL MEETING AND INFORMATION ON E-VOTING NOTICE is hereby given that the 42ND (FORTY-SECOND) Annual General Meeting ('AGM or the 'Meeting') of the members of SKIPPER LIMITED ('the Company') will be held on Tuesday, 19th September, 2023 at 11.30 A.M. (IST) through Video Conferencing or Other Audio Visual Means (VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice convening the Meeting, in compliance with applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act") and the Rules made thereunder and Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations") read with General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, General Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 and subsequent circulars ssued in this regard, the latest being General Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (hereinafter collectively referred to as "MCA Circulars") and circulars issued by Securities and Exchange Board of India vide Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated 12th May, 2020, SEBI/HO/CFD/ CMD2/CIR/P/2021/11 dated 15th January, 2021, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated 13th May, 2022 and SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 dated 5th January, 2023 (hereinafter collectively referred to as "Circulars")

In accordance with the above Circulars, the Company has completed dispatch of the Notice convening the 42rd AGM alongwith the Annual Report of the Company for the financial year ended 31" March, 2023 on 25th August, 2023 through electronic mode only to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Depository Participant(s)/Registrar & Share Transfer Agent (RTA). The Notice and the Annual Report for the financial year ended 31st March, 2023 are available or the website of the Company viz., www.skipperlimited.com and on the website of the stock exchanges where equity shares of the Company are listed viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. The Notice is also available on the e-Voting website of NSDL (Agency engaged for providing e-Voting facility) viz.,

Members are also requested to refer to newspaper advertisement dated 18th August, 2023, issued in Financial Express (English) and Ekdin (Bengali) by the Company, for other details pertaining to the meeting. The said advertisements are also available on the website of the Company and of the Stock Exchanges where the equity shares of the

Act read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, read together with Circulars and Regulation 44 of Listing Regulations, the Company has engaged the services of National Securities Depository Limited (NSDL) to provide remote e-voting services and e-voting facility during the AGM to all the eligible Members to enable them to cast their votes electronically in respect of the businesses to be transacted at the Meeting. The businesses set out in the Notice shall be transacted only through remote e-voting/e-voting.

through remote e-voting and e-voting during the AGM have been provided in the

cut-off date, i.e. Tuesday, 12th September, 2023 shall be entitled to avail the facility of remote e-voting/e-voting at the Meeting. The remote e-voting period commences on Saturday, 16th September, 2023 at 9.00 A.M. and ends on Monday, 18th September, 2023 at 5.00 P.M. The remote e-voting will not be allowed beyond the aforesaid date and time and the remote e-voting module shall be disabled upon expiry of aforesaid period. The voting rights of Members shall be in proportion to their shares in the paid-up equity share capital of the Company as on the cut-off date. A person who is not a member as on the cut- off date should treat the Notice for information purpose only. Only those members, who are present in the meeting through VC/OAVM and have not

cast their vote on resolutions through remote e-voting, shall be allowed to vote through e-voting system during the AGM. However, Members who would have cast their votes by remote e-Voting may attend the Meeting, but shall neither be allowed to change it subsequently nor cast votes again during the Meeting.

Company after dispatch of the Notice of the AGM and holding shares as on the cut-off date, i.e., Tuesday, 12th September, 2023, may obtain the Login User Id and Password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or investor.relations@skipperlimited.com. However, if the person is already registered with NSDL for e-Voting then existing User Id and Password can be used for casting the votes. Alternatively, if you are registered for NSDL e-services i.e., IDeAS, you can login at https://eservices.nsdl.com with your existing IDeAS login and access the e-voting webpage

Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of NSDL e-Voting website, i.e., www.evoting.nsdl.com or call on.: 022 - 4886 7000 and 022 - 2499 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Senior Manager at evoting@nsdl.co.in. Members holding securities in demat mode with CDSL can contact at toll free no. 1800 22 55 33 or at e-mail ID helpdesk.evoting@cdslindia.com. Members may even write to the Company at investor.relations@skipperlimited.com.

For Skipper Limited Anu Singh

Reliance Infrastructure Limited CIN: L75100MH1929PLC001530 Regd. Office: Reliance Centre, Ground Floor 19,

INFORMATION AND BOOK CLOSURE Notice is hereby given that the Annual General Meeting (AGM) of the member of IFL Enterprises Limited (the Company) will be held on Friday, 15th day of September, 2023 at 12:30 P.M. IST through Video-Conferencing/Other Audio Regd. Office: GNA HOUSE, 1-C Chhoti Baradari Part – II, Opposite Medical College

visual means(VC/OAVM) to transact the businesses as set out in the Notice of AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (Act) and Rules framed thereunder read with General Circular issued from time to time, respectively circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Electronic copies of the Notice of the AGM and the Annual Report for the

IFL ENTERPRISES LIMITED

REGD, OFF: C-110 G/F Bhola Nath Nagar, Shahdara NA Delhi, East Delhi,

Delhi 110032 India

SCRIP CODE: 540377, SCRIP ID: IFL, EMAIL ID: iflenterprises@rediffmail.com, www.iflenterprises.com

NOTICE OF 14th ANNUAL GENERAL MEETING REMOTE E-VOTING

financial year ended March 31, 2023 of the Company has been sent to all the members, whose email ids are registered with the Company/RTA/Depository participant(s), as on the cut-off date i.e, 18th August, 2023. Please note that the requirement of sending physical copy of the Notice of the AGM and Annua Report to the Members have been dispensed with vide MCA Circulars. The Notice and the Annual Report will also be available and can be downloaded from the website of the Company www.iflenterprises.com The facility of casting the votes by the members ("e-voting") will be provided by

CDSL ('Central Securities Depository Limited) and the detailed procedure for the same is provided in the Notice of the AGM. The remote e-voting period commences on Tuesday, 12th September, 2023 to Thursday, 14th September, 2023 During this period, members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of 07th September, 2023, may cast their vote by remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. Members participating through in person shall be counted for reckoning the quorum under Section 103 of the Act.

Members, who are holding shares in physical/electronic form and their e-mail addresses are not registered with the Company/their respective Depository Participants, are requested to register their e-mail addresses at the earliest by sending scanned copy of a duly signed letter by the Member(s) mentioning their name, complete address, folio number, number of shares held with the Company along with self-attested scanned copy of the PAN Card and self-attested scanned copy of any one of the following documents viz., Aadhar Card, Driving License, Election Card, Passport, utility bill or any other Govt. document in support of the address proof of the Member as registered with the Company for receiving the Annual Report 2022-23 along with AGM Notice by email to iflenterprises@rediffmail.com . Members holding shares in demat form can update their email address with their Depository Participants. The notice of the AGM contains the instructions regarding the manner in which the shareholders can cast their vote through remote e-voting or by e-voting at the time of AGM. The Register of Members and Share Transfer books of the Company will remain

closed from Saturday, 09th September, 2023 to Friday, 15th September, 2023 (both days inclusive). The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 sent to

members in accordance with the applicable provisions in due course.

For IFL Enterprises Limited

Place: Delhi Date: 25-08-2023 Samad Ahmed Khan DIN: 09527456

RELIANCE Infrastructure

(for the attention of Equity Shareholders of the Company)

NOTICE

Sub.: Transfer of Equity Shares and Dividend of the Company to Investor **Education and Protection Fund Authority**

NOTICE is hereby given that pursuant to the provision of Section 124 of the Companies Act, 2013 and the Investor Education and Protection Fund (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 (the Rules), as amended from time to time, all the share(s) in respect of which dividend has not been paid or claimed for seven consecutive years and the dividend declared for Financial Year 2015-16, which remains unpaid or unclaimed for a period of seven years shall be liable to be transferred to Investor Education and Protection Fund (IEPF) Authority, after November 4, 2023, within due date. As provided under the Rules, the Company has sent individual communication to the

concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to IEPF Authority. The details of shares and dividend liable to be transferred to IEPF Authority are uploaded on website of the Company at www.rinfra.com and the Shareholders are requested to refer to the web-link https://www.rinfra.com/web/rinfra/unpaid-unclaimed-dividend-holders to verify their details. Shareholders may also note that the details uploaded by the Company on its website shall be deemed to be adequate notice for the purpose of transfer of shares to IEPF Authority pursuant to the Rules.

In case shares along with dividend are transferred to IEPF-

a. For shares held in Physical Form: New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the demat account of the IEPF Authority without any b. For shares held in Electronic Form: The shares will be directly transferred to the

demat account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without Shareholders may note that both, the unclaimed dividend and the equity share(s)

transferred to IEPF Authority including all benefits accruing on such share(s), if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the

Shareholders are requested to claim their share(s) and/or unpaid / unclaimed dividend, as stated above, on or before November 04, 2023, failing which the same shall be transferred

to the IEPF Authority without any further notice. For any queries on the above matter, shareholders are requested to contact the Company's

Registrar and Transfer Agent, KFin Technologies Limited, at Selenium Building, Tower-B, Plot No. 31 & 32, Financial District, Nanakramguda, Hyderabad 500032; Tel.:+91 40 6716 1500. Toll Free No.(India): 1800 309 4001. Email: rinfra@kfintech.com

For Reliance Infrastructure Limited

Paresh Rathod

Company Secretary & Compliance Officer Date: August 25, 2023 Walchand Hirachand Marg, Ballard Estate, Mumbai 400001 Tel.: +91 22 4303 1000, Fax: +91 22 4303 4662

NOTICE OF THE 25™ ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Tel No.: 91 712 6782800

 The 25" Annual General Meeting (AGM) of the members of Ceinsys Tech Limited will be held on Saturday, September 16, 2023 at 11:30 a.m. (IST) through Video Conferencing ('VC') / other Audio-Visual Means ('OAVM') in Compliance with all the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulation, 2015, read with Circular No. Ministry of Corporate affairs (MCA) Circular No. 14/2020 dated April 08,2020 Circular No. 17/2020 dated April 13, 2020 Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 Circular No. 21/2021 dated December 14, 2021, Circular No. 2/2022 dated May 5, 2022 and Circular No. 10/2022 dated December 28, 2022 issued by Ministry of Corporate Affairs (MCA), SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 dated May 12, 2020, SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 dated January 15, 2021, Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 on May 13, 2022 and Circular No. SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 on January 5, 2023 and all other relevant circulars issued from time to time, issued by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) to transact the business as set out in the Notice of the 25" AGM

 In compliance with aforesaid circulars, the Company has sent the Notice of 25° AGM and Annual Report for FY 2022-23 on August 25, 2023 through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at https://www.ceinsys.com/investor/, website of the stock exchange https://www.bseindia.com and on the website of NSDL at https://www.evoting.nsdl.com Pursuant to provisions of section 108 of Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014.

as amended, and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. September 9, 2023 may cast their votes electronically on the business as set out in the Notice of the 25" AGM through the electronic voting system of NSDL ('remote e-voting'). The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 25" AGM. In this regard, the members are hereby further informed that:

The business as set forth in the Notice of AGM may be transacted through remote e-voting or e-voting system at the AGM; The remote e-voting through electronic means shall commence from Wednesday, September 13, 2023 at 9.00 a.m. (IST) and shall end and disabled on Friday, September 15, 2023 5.00 p.m. (IST);

The cut-off date for determining the eligibility to vote by remote e-voting or by e-voting system at the AGM shall be Saturday, Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after sending of the Notice and holding.

shares as of the cut-off date, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if he/she is already registered with NSDL for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. Members can vote either through remote e-voting or e-voting at the time of AGM. Instructions for remote e-voting, e-voting at the time of AGM and procedure for attending the AGM through VC/OAVM facility for the members holding shares in dematerialized mode, physical mode and for members who have not registered their e-mail addresses is provided in the Notice of AGM.

vii. Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM through VC/OAVM

mode facility, but shall not be allowed to cast their votes again at the AGM. viii. The manner in which the members who wish to register mandates for receiving their dividend is detailed in the Notice of AGM.

ix. Aperson whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depository as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as e-voting during the AGM.

Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 p.m. on September 15, 2023.

 Pursuant to the provisions of Section 91 of Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Sunday, September 10, 2022 to Saturday, September 16, 2023, (both days inclusive), for the purpose of AGM and to determine the entitlement of Members for the final dividend for 2022-23. In case of any queries, Members may contact Ms. Pooja Karande, Company Secretary and Compliance Officer; Email ID-cs@ceinsys.com; Tel:

Members are requested to note that in case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on toll free no.: 1800-222 990 or send a request to Mr. Anubhav Saxena at evoting@nsdl.co.in By order of the Board of Directors for

> CEINSYS TECH LIMITED Pooja Karande

Place: Kolkata (Company Secretary and Compliance Officer)

(Company Secretary & Compliance Officer)

New Delhi

Pursuant to the provisions of Section 108 and other applicable provisions, if any, of the

Details for attending the AGM through VC/OAVM and manner of casting vote

A person, holding shares either in physical form or in dematerialized form as on the

Any person, who acquires shares in the Company and becomes a Member of the

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for

Date: 25th August, 2023

E-mail:rinfra.investor@relianceada.com, Website:www.rinfra.com

Place: Mumbai

ICSI Membership No: F9782

बकावा

राशि रु

चार सौ बहत्तर

रुपये मात्र)

लील इलेक्टिकल्स लिमिटेड (परिसमापन में) पंजीकृत कार्यालयः यूनिट नंबर ८, ब्लॉक-ए, ककराला मेन रोड, सेक्टर ८०, औद्योगिक क्षेत्र, फेज-II, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, उ.प्र. 201305

परिसमापकः श्री गंगा राम अग्रवाल पता: ई-10ए, कैलाश कॉलोनी, ग्रेटर कैलाश-1, नई दिल्ली-110048 ईमेल आईडी: assetsale1@aaainsolvency.in; leel@aaainsolvency.com संपर्क नंबर: +91 8800865284 (श्री पुनीत सचदेवा/राज कुमार)

दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 के तहत संपत्तियों की बिक्री ई-नीलामी की तिथि और समय: 28 सितम्बर, 2023 अपराह्न 3:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक

(प्रत्येक 5 मिनट के असीमित विस्तार के साथ) संभावित बोलीदाता द्वारा पात्रता दस्तावेज जमा करने की अंतिम तिथि: 11 सितम्बर, 2023 ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 26 सितम्बर, 2023 अपराह्न 3:00 बजे तक

आईसीडी, दादरी, उत्तर प्रदेश में स्टार ट्रैक टर्मिनल्स प्राइवेट लिमिटेड के पास पड़ी कॉर्पोरेट देनदार की संपत्ति और माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण, इलाहाबाद पीठ द्वारा सी.पी. (आईबी)189/एएलडी/2019 में दिनांक 06.12.2021 के आदेश के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापन संपत्ति के हिस्से की बिक्री। बिक्री अधोहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी प्लेटफॉर्म https://nbld.nesl.co.in/app/login के माध्यम से की जाएगी।

आस्तियों का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	w' .	
ब्ला	क ए (नालामा का तिथि 28 सित	ाम्बर, 2023)	
आइसाडा दादरा म ट्रासवल्ड टर्मिन्स दादरी प्राइवेट लिमिटेड की उनके संबंधित आंकिक मात्रा (कम्प्रेशर आदि) के अनुसार वर्गीकरणीय इन्वेंट्री या कच्चे माल की बिक्री*	रु. 2,15,82,432/- (रुपये दो करोड़ पन्द्रह लाख बयासी हजार चार सौ बत्तीस मात्र)	रु. 21,58,243∕-	रु. 2,00,000∕-
59	ब्लॉक बी (नीलामी की तिथि 2	8 सितम्बर, 2023)	
आईसीडी दादरी में ट्रांसवर्ल्ड टर्मिनल्स दादरी प्राइवेट लिमिटेड की उनके संबंधित भार (कॉपर, एल्युमीनियम तथा एबीएस) के अनुसार वर्गीकरणीय इन्वेंट्री या कच्चे माल की बिक्री*	रु. 3,37,09,711/- (रुपये तीन करोड़ सैंतीस लाख नौ हजार सात सौ ग्यारह मात्र)	र्फ. 33,70,971/−	₹. 2,00,000/-

जा रही संपत्तियों पर स्पष्टीकरण के लिए कृपया ई-नीलामी दस्तावेज क्रमांक EAUCTION/DOC/2023/23 देखें। ईएमडी जमा करने और प्रक्रिया में भागीदारी करने से पहले विस्तृत नियम और शर्तों के लिए कृपया एएए इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स एलएलपी की वेबसाइट यानी https://lnsolvencyandbankruptcy.in/public-announcement/leel-electricals-limited/ और उपरोक्त लिंक पर अपलोड किया गया ई-नीलामी प्रक्रिया दस्तावेज देखें।

दिनांक: 25.08.2023

स्थानः नई दिल्ली

लील इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के मामले में परिसमापक रजि. क्रमांक - IBBI/IPA-002/IP-N00874/2019-2020/12777 leel@aaainsolvencv.com, assetsale1@aaainsolvency.ln

गंगा राम अग्रवाल

TENDER NOTICE: SI REGIMENTALS SHOP, 13BRD, AIR FORCE

Air Officer Commanding, 13 Base Repair Depot, Air Force Palam, New Delhi -10 invites sealed tenders from war widow/widow of defence personnel killed while on duty, disable soldiers/ ex -servicemen and spouses/widow of ex - servicemen etc having sound financial status in order to run for the period of one year, for running the following shops inside the camp area -

SI No	Shop	Area	Minimum acceptable monthly rebate excluding R & A Charges raised by MES
01	Sweet & Bakery Shop	Shopping Complex 13BRD	19500.00
02	Eatery Point (South India Food)	NearAFFWA(L), 13BRD	3000.00

- Tender forms can be obtained from SI Office, 13BRD, AF from Monday to Friday between 1000 hrs to 1300 hrs wef 25 Aug 23 to 08 Sep 23 on payment (through POS) of Rs. 200/-(nonrefundable) and EMD of Rs. 5,000/- is to be deposit in form of Demand Draft in favor of OFFICER IC SI with the tender form. Application are to mention on top of the sealed envelope as "TENDER FOR......(Name of shop). Duly complete tender form along with EMD and other documents(self-attested copies) are mentioned below are to be depositing in tender box kept at main gate of Tech area on or before 1000 hrs on 11 Sep 23.
- The tender box will be opened at 1200 hrs on 11 Sep 23 by Independent Board of Officer in the presence of available applicant who have applied for the shop. Tender form will be rejected if not filled correctly, unfilled and not attached the required documents as mentioned below or in tender form. The shop will be allotted to the part as it is condition, no repair/maintenance work will be undertaken by administration. All applicant or their dependent have to be available while opening of tender box to prove his/her identity/eligibility. Details of required documents are appended below:-

(a)	Discharge Book	(b)	Pension Pay Order		
(c)	Retired Veteran Identity Card	(d)	Experience certificate (if any)		
(e)	Education Certificate	(f)	Bank Pass Book		
(g)	IT Return for last 03 years	(h) Aadhaar Card			
(I)	GSTAN/PAN No. & sales Tax Deposition documents in the name of his /her firm				

Contract for the shop will be awarded to the highest bidder as per priority category subject to fulfillment of terms and conditions. The Air Force authority will have the right to accept or reject ant tender or all tenders without assigning any reasons thereof.

(B Sandeep Krishnan) Wing Commander Chief Administrative Officer 13 BRD Air Force

POONAWALLA HOUSING FINANCE

पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड . (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) पंजीकृत कार्यालय : 602, 6ठवां तल, जीरो वन आईटी पार्क, सीरि. नं. 79/1, घोरपाड़ी, मुंधवा रोड, पुणे-411036

परिशिष्ट—IV (नियम 8(1) देखें) अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु)

क्र. सं.	ऋणकतीओ के नाम	संपत्ति का विवरण	अधग्रहण किये जाने की तिथि	संबंधानिक मांग सूचना की तिथि	माग सूचना में राशि (रु.)
1.	मुशरफ अंसारी, तबस्सुम,	उत्तरी भाग के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 100 वर्ग गज है (उक्त भाग) प्लॉट नं. 94 का भाग (क्षेत्र माप 200 वर्ग गज) विक्रम एन्क्लेव कॉलोनी, ग्राम पसोंदा, परगना लोनी गाजियाबाद में स्थित तथा निम्नवत् परिसीमित है: पूर्व— प्लॉट नं. 93, पश्चिम— प्लॉट नं. 95, उत्तर— गली 10 फुट, दक्षिण— प्लॉट का भाग		07.06.2023	ऋण सं: . HL/0245/H/14/100041 रु. 1787809.53/- (रुपये सत्रह लाख सत्तासी हजार आठ सौ नौ एवं तिरेपन पैसे मात्र) जो 07–06–2023 के अनुसार, वसूली होने तक 16.80% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है।
2.	पूजा, सोनू राम,	स्वामित्वधारक अविनिर्दिष्ट आवासीय संपत्ति/भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश, क्षेत्राधिमापन 11 मरले, खेवट खाता सं. 135/125 खतौनी सं 161एमयू. नं. 58 किला नं. 14/168 15/106 में से, वाका मौजा जवान उप—तहसील मोहना जिला फरीदाबाद हरियाणा में स्थित तथा निम्नवत् परिसीमित है: पूर्व— सुमेर सिंह का मकान, पश्चिम— जितेन्द्र का भूखंड, उत्तर— सुनील का मकान, दक्षिण— 20 फुट रोड।		07.06.2023	ऋण सं: . HF/0179/H/20/100312 रु. 1101223.38/- (रुपये ग्यारह लाख एक हजार दो सौ तेईस एवं अड़तीस पैसे मात्र) जो 07–06–2023 के अनुसार, वसूली होने तक 16.5% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है।
3.	सुरेंद्र कुमार, रेखा दिलावरी,	नगर निगम सं. आर—82 के समस्त वह भाग तथा अंश जो प्लॉट नं. 92 परि निर्मित, माप 157.5/9 वर्ग गज (खसरा नं. 18, ग्राम धीरपुर में) ऋषभ नगरी, मॉडल टॉउन—।।।, दिल्ली 110009 में स्थित है।		07.06.2023	ऋण सं: HL0031/HDLH00007611 रु. 369774.38/- (रुपये तीन लाख उनहत्तर हजार सात सौ चौवहत्तर एवं अड़तीस पैसे मात्र) जो 07–06–2023 के अनुसार, वसूली होने तक 19.9% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है।
4.	योगेश कुमार मिश्रा, सीमा देवी,	भूमि के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र माप 60 वर्ग गज है जो खेवट सं. 64/2, खतौनी नं. 130 मिन., किला नं. 81/7/2 (2-7), वाका मौजा गौची, तहसील बल्लभगढ़, जिला फरीदाबाद, हरियाणा में स्थित तथा निम्नवत् परिसीमित है: पूर्व-15 फुट चौड़ी सड़क, पश्चिम-		07.06.2023	ऋण सं: . HL/0179/H/19/100055 रु. 448753.52/- (रुपये चार लाख अड़तालिस हजार सात सौ तिरेपन एवं बावन पैसे मात्र) जो 07–06–2023 के अनुसार वसूली होने तक 17% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भगतानयोग्य है, तथा

माइक्रोफाइन टूलिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, उत्तर- श्री सुनील ऋण सं.: . HL/0179/H/19/100035 शर्मा की संपत्ति, दक्षिण– श्री शुभम शर्मा की संपत्ति। रु. 288114.49/- (रुपये दो लाख अट्टासी हजार एक सौ चौदह एवं उनचास पैसे मात्र) जो 07-06-2023 के अनुसार, वसूली होने तक 17% वार्षिक की दर पर ब्याज के साथ, भूगतानयोग्य है, स्वामित्वधारक आवासीय रिक्त भुखंड के समस्त वह भाग तथा 24.08.2023 07.06.2023 रहण सं.: . HM/0399/H/18/100451 रु. 1051123.90/- (रुपये दस लाख अंश, क्षेत्राधिमापन 50 वर्ग गज (41.80 वर्ग मीटर) जो खसरा नं. 56एमआई के अंतर्गत, ग्राम अकबरपर बहरामपर परगना इक्यावन हजार एक सौ तेईस एवं नब्बे पैसे मिनाज लोनी तहसील एवं जिला गाजियाबाद में स्थित तथा निम्नवत् मात्र) जो 07-06-2023 के अनुसार, वसूली परिसीमित है : पूर्व– अन्य की संपत्ति, पश्चिम– अन्य की होने तक 15% वार्षिक की दर पर ब्याज के संपत्ति, उत्तर- अन्य की संपत्ति, दक्षिण- सडक 12 फूट। साथ, भुगतानयोग्य है। एक कित्ता दुकान के समस्त वह भाग तथा अंश जो वार्ड _{22.08.2023} 07.06.2023 ऋण सं.: . HF/0100/H/20/100157 हर्षित i. 17 ग्राम भदवार गंज कस्बा उझानी तहसील और जिला रु. 884556.56/- (रुपये आठ लाख चौरासी जयगोपाल, बदायूं, माप 4.53 वर्ग मीटर, में स्थित तथा निम्नवत् हजार पांच सौ छप्पन एवं छप्पन पैसे मात्र) कामिनी देवी, परिसोमित है : पूर्व– गली 6 फूट चौड़ी, पश्चिम– अशोक जो 07-06-2023 के अनुसार, वसूली होने कुमार की दुकान, उत्तर- याशमीन यूसुफ की दुकान, तक 17.5% वार्षिक की दर पर ब्याज के वार्ष्णेय, साथ, भुगतानयोग्य है। दक्षिण- राधा अग्रवाल की दुकान। मकान नं. 379 के समस्त वह भाग तथा अंश जो बाउट 23.08.2023 07.06.2023 ऋण सं.: . HM/0100/H/18/100166

दास, उत्तर– मकान के उत्तराधिकारी प्रयाग दास, दक्षिण– ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है। सुरेश रस्तोगी, लक्ष्मी नारायण एवं अन्य का मकान। हस्ता./— प्राधिकृत अधिकारी पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड स्थान : दिल्ली, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बरेली (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिजात) PROTECTING INVESTING FINANCING ADVISING

पंजीकृत कार्यालयः इण्डियन रेयॉन कम्पाउण्ड, वेरावल, गुजरात 362266 शाखा कार्यालय: 1ला तल, विजया बैंक बिल्डिंग, प्लॉट नं. 17, बाराखम्बा रोड,

नर्ड दिल्ली-110001 'परिशिष्ट-IV-ए'

[प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8(6) तथा नियम 9(1) का प्रावधान देखें] अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सुचना

वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभृति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 (2002 के 54) के नियम एवं 8(6) के प्रावधान के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये 30 दिनों की ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदहारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक(कों) तथा गारंटर(रों) को सचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका आदित्य बिरला फाइनांस लिमिटेड/प्रतिभृत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की अधोलिखित ऋणधारकों तथा सह-ऋणधारकों नाम एस.के. मेडिकोज, द्वारा प्रॉप्राईटर श्री सतीश कुमार गर्ग, श्रीमती शिखा गर्ग, सुश्री लिलता देवी से प्रतिभृत क्रेडीटर के बकाये 8.8.23 को देय रु. 1,02,45,107/- (रु. एक करोड़ दो लाख पैंतालिस हजार एक सौ सात मात्र) तथा आगे का ब्याज तथा सम्पूर्ण बकाये राशि की वसूली तक टीडीएस गणना तथा उस पर भूगतान-पूर्व प्रभारों सहित अन्य खर्चे की वसूली के लिये 4 अक्टूबर, 2023 को ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कछ भी वहां है'' आधार पर गिरवी सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।

सम्पत्ति सं.: ''ग्राम पहलाद गरही, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित ''एपैक्स ग्रीन वैली'' के रूप में विदित आवासीय कालोनी में स्थित सी-ब्लॉक, सुपर एरिया माप 2175 वर्ग फीट में 5वें तल पर फ्लैट नं. 501'' के लिये आरक्षित मूल्य रु. 98,96,250/-(रु. अन्टानवे लाख छियानवे हजार दो सौ पचास मात्र) होगी तथा धरोहर राशि भुगतान रु. ९,९०,०००/- (रु. नौ लाख नब्बे हजार मात्र) होगी।

अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

'ग्राम प्रह्लाद गरही, परगणा लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, उ.प्र. में स्थित ''एपैक्स ग्रीन वैली' रूप में विदित आवासीय कालोनी में स्थित सी-ब्लॉक, सुपर एरिया माप 2175 वर्ग फीट में 5वें तल पर बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड/प्रतिभृत क्रेडीटर https://homefinance.adityabirlacapital.com/properties-forauction-under-sarfaesi-act अथवा https://sarfaesi.auctiontiger.net देखें। भूपेन्दर तँवर

स्थानः गाजियाबाद (प्राधिकृत अधिकारी) तिथि: 26.8.2023 आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनांस लिमिटेड नेस्ले इंडिया लिमिटेड

(CIN: L15202DL1959PLC003786) पंजीकत कार्यालय: 100 / 101, बर्ल्ड टेड सेन्टर, बाराखम्बा लेन, नई दिल्ली - 110 001 ई-मेल: investor@in.nestle.com

हेबसाइट: www.nestle.in फोन: 011-23418891

सूचना

कम्पनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 201 के अनुपालन में एतदद्वारा सचित किया जाता है कि 1 जुलाई 2023 से पाँच वर्षों की अवधि के लिए नेस्ले इंडिया लिमिटेड के पूर्ण कालिक निदेशक जो कार्यकारी निदेशक तकनीकी पदनामित के रूप मे श्री सतीश श्रीनिवासन (DIN: 10173407) की नियुक्ति के लिए अधिनियम की धारा 196 के अंतर्गत कम्पनी द्वारा केन्द्रीय सरकार के पास आवेदन किया जा रहा है। यह स्वीकृति अधिनियम के अंतर्गत इसलिए प्राप्त की जा रही है क्योंकि श्री सतीश, पूर्णकालिक निदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति की तिथि से तत्काल पूर्व कम से कम 12 महीने की लगातार अवधि से भारत में नहीं रह रहे हैं। 5 जुलाई 2023 को सम्पन्न हुए डाक मतपत्र के माध्यम से कम्पनी के सदस्यों ने 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2028 तक लगातार पाँच वर्षों की अवधि के लिये पूर्णकालिक निदेशक के रूप में श्री सतीश की नियुक्ति के नियमों एवं शर्तों तथा उन्हें देय परिश्रमिक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की है।

नेस्ले इंडिया लिमिटेड प्रमोद क्मार राय स्थानः गुडगाँव तिथिः 19.08.2023 कम्पनी सचिव

MONDER HOME FINANCE

वडर होम फाइनेंस लिमिटेड

कॉरपोरेट ऑफिस : 620, छठवीं मंजिल, नॉर्थ ब्लॉक, वर्ल्ड ट्रेड पार्क, मालवीय नगर, जेएलएन रोड, जयपूर- 302017, टेलीफोन: 0141- 4750000

कब्जा नोटिस

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत और सुरक्षा के नियम 9 के साथ पठित धारा 13 (12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्तनोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने का आह्वान किया गया था। कर्जदाराँ द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उन्तनियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्तअधिनियम की धारा 13(4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है ।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्वारा आगाह किया जाता है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन बंडर होम फाइनेंस लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि नीचे दी गई है और उस पर ब्याज, लागत आदि ।

क्र. सं.	ऋणी का नाम व खाता संख्या	नोटिस की दिनांक व राशि	वंधक सम्पत्ति का विवरण	कड़ने की तारीख व प्रकार	
1.	श्री सत्य नारायण जाट पुत्र श्री मधुरा लाल जाट (आवेदक एवं बंधककर्ता) एवं श्रीमती सुगना देवी जाट पत्नी श्री सत्य नारायण जाट (सह-आवेदक) LN29023BT21-22004190 LN29023TU21-22004493	14 जून 2023 ₹11,98,172 /- बकाया 14 जून 2023 आगे के ब्याज, लागतें व शुल्क	पष्ट्र संख्या 118, जाट मोहल्ला, चारभुजा मंदिर के सामने गांव बलिया खेड़ा, ग्राम पंचायत रेड़वास,पंचायत समिति कोटड़ी, जिला. भीलवाड़ा, राजस्थान-311603 लगभग 1200.00 वर्गफुट	सांकेतिक कब्जा दिनांक 23 अगस्त 2023	
	श्री लक्ष्मी लाल मेनारिया पुत्र श्री नाथू लाल मेनारिया (आवेदक एवं बंधककर्ता) एवं श्रीमती मोहनी बाई पली श्री लक्ष्मी लाल मेनारिया (सह-आवेदक) LN29007TU20-21002196 LN29007HE18-19000077		आराजी नंबर 1112, ग्राम रुंडेडा, ग्राम पंचायत रुंडेडा, पंचायत समिति भीण्डर, जिला. उदयपुर, राजस्थान-313601 लगभग 1018.75 वर्गफुट	सांकेतिक कब्जा दिनांक 24 अगस्त 2023	

दिनांक : 25.08.2023, स्थान : जयपुर

अधिकृत अधिकारी, वंडर होम फाइनेंस लिमिटेड



काँड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड सीआईएन: L74999DL1991PLC046092

पंजीकृत कार्यालय : 94, पहली मंजिल, शंभू दयाल बाग मार्ग, ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेज-III के पास, ओल्ड ईश्वर नगर, नई दिल्ली-20.

दूरभाषः 011-40551200, फैक्स नंबरः 011-40551281 वेबसाइटः www.cordscable.com, ई-मेलः cccil@cordscable.com 32वीं वार्षिक आम बैठक, रिमोट ई-वोटिंग, बुक क्लोजर और रिकॉर्ड तिथि की सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों, कॉपोर्रेट कार्य मंत्रालय ('एमसीए') के सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 20/2020 दिनांक 5 अप्रैल मई, 2020, 02/2021 दिनांक 13 जनवरी, 2021, 19/2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021, 21/2021 दिनांक 14 दिसंबर, 2021 और सामान्य परिपत्र संख्या 02/2022 दिनांक 05 मई. 2022 और 10/2022 दिनांक 28 दिसंबर , 2022 (सामृहिक रूप से 'एमसीए परिपत्र' के रूप में संदर्भित) के साथ पठित सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 और भारतीय प्रतिभृति और विनिमय बोर्ड (सेबी) परिपत्र संख्या SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/79 दिनांक 12 मई, 2020 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2021/11 दिनांक 15 जनवरी, 2021 और SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 दिनांक 13 मई, 2022 और SEBI/HO/CFD/PoD-2/P/CIR/2023/4 दिनांक 05 जनवरी, 2023 के अनुपालन में 28 जुलाई, 2023 के एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय के लेन-देन के लिए कंपनी की 32वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को अपराह्न 03:00 बजे (भा.मा.स.) सदस्यों की सामान्य स्थल पर भौतिक उपस्थित के बिना वीडियो कॉन्फ्रेंस/अन्य ऑडियो विजअल मोड (वीसी/ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी। सदस्य https://instameet.linkintime.co.in पर एजीएम में भाग ले सकेंगे।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित लागू नियमों और सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, एजीएम के प्रयोजन के लिए कंपनी के सदस्यों का रिकॉर्ड लेने के लिए कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें शनिवार, 16 सितंबर, 2023 से शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 (दोनों दिन सम्मिलित) तक बंद रहेंगी।

प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में, व्याख्यात्मक विवरण और वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक रिपोर्ट के साथ 32वीं एजीएम की सूचना 23 अगस्त, 2023 को केवल उन सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेजा गया है, जिनकी ईमेल आईडी कंपनी या डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के साथ पंजीकृत हैं, क्योंकि एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022-23 वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.cordscable.com, लिंक इनटाइम (रिमोट ई वोटिंग/ एजीएम के दौरान ई वोटिंग सुविधा प्रदान करने वाली एजेंसी) की वेबसाइट यानी https://instavote.linkintime.co.in और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट (www.nseindia.com और www.bseindia.com) पर उपलब्ध होगी। सदस्य इसे कंपनी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं या कंपनी को csco@cordscable.com पर लिखकर इसकी प्रति के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के प्रावधानों, सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक-2 और समय-समय पर संशोधित सेबी (सुचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, कंपनी शक्रवार, 15 सितंबर, 2023 तक शेयर धारण करने वाले अपने सदस्यों को लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से एजीएम की सचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर दरस्थ स्थान ('रिमोट ई-वोटिंग') या एजीएम में ई-वोटिंग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट डालने की सविधा प्रदान कर रही है। कंपनी ने रिमोट ई-वोटिंग सुविधा और एजीएम में ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को नियुक्त किया है। इसलिए एजीएम का कारोबार लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से किया जा सकता है और भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले सदस्य इलेक्टॉनिक रूप से अपना वोट डाल सकते हैं। ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं/निर्देश 32वीं एजीएम नोटिस में शामिल

सभी सदस्यों को सचित किया जाता है कि:

i. 32वीं एजीएम के नोटिस में बताए गए व्यवसाय (साधारण और विशेष) का संचालन केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा;

- ii. रिमोट ई-वोटिंग मंगलवार, 19 सितंबर, 2023 को सुबह 09:30 बजे शुरू होगी;
- iii. रिमोट ई-वोटिंग गुरुवार, 21 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी;
- iv. 32वीं एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग या ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से वोट करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 है। कोई भी व्यक्ति, जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और नोटिस भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 15 सितंबर, 2023 को शेयर धारण करता है, rnt.helpdesk@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम के साथ पहले से ही पंजीकृत है, तो मौजदा युजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग वोट डालने के लिए किया जा सकता है या वह एजीएम के नोटिस में 'रिमोट ई-वोटिंग के लिए निर्देश' के तहत उल्लिखित चरणों
- उन शेयरधारकों के लिए जो भौतिक मोड में शेयर रखते हैं या जिनके ई-मेल पते उनके डिपॉजिटरी के साथ पंजीकत नहीं हैं, प्रस्तावों पर ई-वोटिंग के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड प्राप्त करने और ईमेल पते के पंजीकरण की प्रक्रिया एजीएम की सूचना के नोट में निर्धारित की गई है।
- vi. वोट देने के पात्र सदस्य ध्यान दें किः (क) लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान उपलब्ध कराई जाएगी;

स्थानः नर्ड दिल्ली

दिनांक: 25.08.2023

- (ख) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्युल को लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 21 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे के बाद अक्षम कर दिया जाएगा और एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी;
- (ग) 32वीं एजीएम में भाग लेने वाले सदस्य और जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला था, वे एजीएम के दौरान ई-वोटिंग प्रणाली के माध्यम से अपना वोट डालने के हकदार होंगे। एजीएम के दिन रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को बैठक के समापन के 15 मिनट बाद वोटिंग के लिए लिंक इनटाइम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्षम कर दिया जाएगा;
- (घ) जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन दोबारा वोट डालने के हकदार नहीं होंगे: और (ङ) एक व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि पर सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में दर्ज है,
- केवल वही रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम में वोटिंग की सविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा। (च) सदस्य केवल वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यों को
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के उद्देश्य से गिना जाएगा। (छ) एजीएम के नोटिस में संदर्भित दस्तावेज इस नोटिस के प्रसारित होने की तारीख से एजीएम की तारीख तक सदस्यों द्वारा बिना किसी शुल्क के
- निरीक्षण के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध हैं। ऐसे दस्तावेजों का निरीक्षण करने के इच्छुक सदस्य csco@cordscable.com पर ईमेल (ज) निदेशक मंडल ने बैठक में मतदान और रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच करने के लिए श्री गुलशन कुमार गुप्ता,
- प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (एफसीएस-5576 और सीओपी-3925) को संवीक्षक नियुक्त किया है।. (झ) हम उन सभी शेयरधारकों से अनुरोध करते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक/भौतिक मोड में शेयर हैं और जिन्होंने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट/रजिस्ट्रार
- और ट्रांसफर एजेंट/कंपनी के साथ अपनी ई-मेल आईडी, मोबाइल नंबर, पैन, पता या बैंक विवरण अपडेट नहीं किया है (कंपनी द्वारा घोषित लाभांश के इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्राप्त करने के लिए), बिना किसी व्यवधान और देरी के सभी संचार तुरंत प्राप्त करने के लिए, delhi@linkintime.co.in या shamwant.kushwah@linkintime.co.in पर एक प्रति csco@cordscable.com को मार्क करते हुए और साथ ही एक हस्ताक्षरित अनुरोध पत्र के साथ फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, पता, बैंक विवरण, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (सामने और पीछे), पैन कार्ड की स्व-सत्यापित स्कैन की गई कॉपी, कैंसिल्ड चेक, पते का प्रमाण (आधार कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/पासपोर्ट) आदि संलग्न करके ई-मेल भेजकर इसे अपडेट करने का अनुरोध करें ।
- vii. किसी भी प्रश्न/शिकायत के मामले में, सदस्य https://instavote.linkintime.co.in पर हेल्प खण्ड में उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न ("एफएक्यू") और सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध Frequently Asked Questions ("FAQs") तथा instavote e-voting manual का सन्दर्भ ले सकते हैं या enotices@linkintime.co.in पर ईमेल भेज सकते हैं या 022-49186000 पर संपर्क करें या श्री जय प्रकाश वीपी, सीनियर टीम लीडर - लिंक इनटाइम, पता सी-101, 247 पार्क, एल.बी.एस. मार्ग, विखरोली (पश्चिम), मुंबई- 400083, ईमेल आईडी: rnt.helpdesk@linkintime.co.in, फोन: 022-49186270 से संपर्क करें।
- viii. जिन सदस्यों को एजीएम में भाग लेने के संबंध में तकनीकी सहायता की आवश्यकता है, वे instameet@linkintime.co.in पर ई-मेल भेज सकते हैं या 022-49186175 पर कॉल कर सकते हैं।

कॉर्ड्स केबल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए

(गरिमा पंत) कंपनी सचिव

Satin Housing Finance Ltd. THE ANSWER IS HOME

उधारकर्ता ,सह-उधारकर्ता

का नाम और पता एवं ऋण

सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिभिटेड कॉर्पोरेट कार्यालयः प्लॉट नं. 492, उद्योग विहार, फेज-3, गुरुग्राम हरियाणा-122016 पंजीकृत कार्यालयः 5वीं मंजिल, कुंदन भवन, आजादपुर वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स, आजादपुर, नई दिल्ली-110033

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) कब्ज़-सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभृतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2022 (2002 का 54)के तहत सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और प्रतिभति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए मांग नोटिस जारी किया जिसमें उचारकर्ता/ओं को यहां दिए गए विवरण के अनुसार, संबंधित उधारकर्ताओं से उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर भुगतान की वास्तविक तिथि तक सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों के साथ नोटिस में उत्लिखित राशि चुकाने के लिए कहा गया है। उक्त उधारकर्ता / सड-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता राशि को बुकाने में विफल रहे हैं,उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतद्दवारा नोटिस दिया जाता है कि अघोहस्ताहारी ने प्रतिमृति हित प्रवर्तन अघिनियम 2022 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर इस तिथि को सांकेतिक कब्जा कर लिया है। विशेष रूप से उधारकर्ता / सह-उधारकर्ता / गारंटर / बंधककर्ता और आम जनता को एतदवारा आगाह किया

जाता है उक्त संपत्तियों के साथ सौदा न करें और संपत्ति के साथ किशी भी तरह का लेन-देन करने पर पुर्ण मुगतान तक संबंधित तिथियों से मावी = व्याज, लागत और प्रमार के साथ उसमें निर्दिष्ट राशि सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

प्रतिभृति परिसंपत्तियों को मुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में, अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा के प्रावधानों के लिए उधारकतों का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

. उधारकर्ताओं, सह-उधारकर्ताओं और गारंटरों का विवरणों,प्रतिभृतियों, बकाया देयताओं, धारा 13(2) के तहत मेजे गए डिमांड नोटिस और उसके तहत दावा की गई राष्ट्रि और कब्जे की तारीख का विवरण निम्नानुसार दिया गया है:

अचल संपत्ति

का विवरण

	खाता सं			
1.	नाधू राम पुत्र लादू राम बेरवा (उधारकर्ता) मंजू देवी पत्नी नाधू राम (सह-उधारकर्ता) लेन न. LAJPR0319&00000612	363, रकीम संजय नगर ढीसीएम, कच्ची बस्ती अजमेर रोड, जयपुर, राजस्थान (भारत) पिनकोड- 302021। माप -38.545 वर्ग गज, बीहरी - पूर्व: प्लॉट नंबर 365, पश्चिम: 15 फीट बीढ़ा रास्ता , रास्ता:15.9 फीट बीडा रास्ता, दक्षि	प्रताकात्मक कब्ज़ा दिनांक	10 मई 2023 के अनुसार रु. 4,85,162/- (रुपये चार लाख पद्मासी हजार एक सी बासठ मात्र)
2.	खुशाल दास पुत्र हीरा लाल परवानी (उधारकर्ता) 2. वंशिका परवानी पुत्री कुन्दन लाल (सह-उधारकर्ता) तैन नं. LAAJM0820&00001865	मकान नं. 2/17-बी, हाउसिंग बीर्ड, पायर हाउस, नाकामदार, अजमेर अजमेर मुख्यालय, अजमेर, राजस्थान (भारत) फिनकोड-305001, माप-42,187 वर्ग मीटर, चीहरी :पूर्व की ओर घिरा 11.25 मीटर मकान नं. 2/ 16 बी, पश्चिम 11.25 मीटर मकान उत्तर 03.75 मीटर मकान नं. 2/ 03.75 मीटर सडक।		10 मई 2023 के अनुसार ७. 8,07,753 / — (रुपये आठ लाख सात हजार सात सी तिरुपन मात्र)
3.	दिलीप पुत्र मदन ताल स्वामी (उधारकर्ता) उहसा पत्नी सरवन कुमार (सह–उधारकर्ता) लैन मं, LAJDP0721&00003206	कृष्णा स्कूल के पास, जोधपुर, मगत	प्रताकात्मक कब्ज़ा दिनांक	10 मई 2023 के अनुसार रु. 6,95,472 / — (छह लाख पंचानबे हजार

ल्यानः दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी सतिन हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विनांकः 25-अगस्त-2023 आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

धिमाः प्लॉट नंबर 06.

(भारत) पिनकोड-342005, माप 1094

13 वर्ग फीट, बीहदी इस प्रकार है- पूर्व: प्लॉट नंबर

08. पश्चिम: 30 फीट सडक, उत्तर: प्लीट नंबर 04.

पंजीकृत कार्यालय : सी-110 जी / एफ भोला नाथ नगर. शाहदरा एनए दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली 110032 भारत स्क्रिप कोडः 540377, स्क्रिप आईडीः आईएफएल, ईमेल आईडी: iflenterprises@rediffmail.com, www.iflenterprises.com 14वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना, रिमोट ई-वोटिंग की

1. एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड (कंपनी) के सदस्यों की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:30 बजे आईएसटी, कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) एवं समय–समय पर उसके तहत निर्धारित नियमों के लागू प्रावधानों के साथ पठित कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य परिपत्रों ("एमसीए परिपत्रों") क्रमशःनियमों के अनुपालन में एजीएम केनोटिस में निर्धारित व्यवसायों को कार्यान्वन के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विजअल माध्यमों (वीसी / ओएवीएम) के माध्यम से बैठक

जानकारी और बुक क्लोजर

इलेक्ट्रॉनिक प्रतियां उन सभी सदस्यों को भेज दी गई हैं,जिनकी ईमेल आईडी , कट-ऑफ तिथि यानी 18 अगस्त, 2023 के अनुसार कंपनी / आरटीए / डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत हैं कृपया ध्यान दें कि सदस्यों को एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता को एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट भी उपलब्ध होगी और इसे कंपनी की वेबसाइट www.iflenterprises.com से डाउनलोड किया

2. कंपनी की एजीएम की सूचना और 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट की

. सदस्यों द्वारा वोट डालने की सुविधा ("ई–वोटिंग") सीडीएसएल ('सेंट्रल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड) द्वारा प्रदान की जाएगी और इसके लिए विस्तृत प्रक्रिया एजीएम के नोटिस में प्रदान की गई है। रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 12 सितंबर, 2023 से गुरुवार, 14 सितंबर, 2023 तक शरू होती है। इस अवधि के दौरान, कंपनी के जो सदस्य, 07 सितंबर, 2023 की कट—ऑफ तिथि के अनुसार, भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखते हैं, वे एजीएम के समय रिमोट ई—वोटिंग या ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल सकते हैं।एजीएम में व्यक्तिगत रूप से भाग लेने वाले सदस्यों को अधिनियम की धारा 103 के तहत कोरम की गणना के लिए गिना जाएगा।

- . वे सदस्य, जिनके पास भौतिक / इलेक्ट्रॉनिक रूप में शेयर हैं और उनके ई–मेल पते कंपनी / उनके संबंधित डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं, उनसे अनुरोध है कि वे सदस्य(ओं) द्वार हस्ताक्षरित पत्र जिसमें उनका नाम, परा पता, फोलियो नंबर, कंपनी के पास मौजद शेयरों की संख्या के साथ पैन कार्ड की स्व–सत्यापित स्कैन प्रति तथा एजीएम नोटिस के साथ वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 प्राप्त करने के लिए कंपनी के साथ पंजीकृत सदस्य के पते के प्रमाण के समर्थन में कोई अन्य सरकारी दस्तावेज तथा निम्नलिखित दस्तावेजों जैसे आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, चुनाव कार्ड, पासपोर्ट, उपयोगिता बिल में से किसी एक की स्व-सत्यापित स्कैन प्रति शामिल हो, के विधिवत रूप से स्कैन की गई प्रति को पिसमदजमतचतपेमें / तमकपिं पेसण्बवउ पर ईमेल द्वार भेजकर अपने ई-मेल पते को जल्द से जल्द पंजीकृत करें। डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ अपना ईमेल पता अपडेट कर सकते हैं। एजीएम के नोटिस में उस विधि के बारे में निर्देश शामिल हैं जिसमें शेयरधारक एजीएम के समय रिमोट ई–वोटिंग य ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डाल सकते हैं।
- 5. कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और शेयर ट्रांसफर पुस्तकें, शनिवार, 09 सितंबर, 2023 से शुक्रवार 15 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी।
- 6. एजीएम की सूचना और वित्तीय वर्ष 2022—23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट, सदस्यों को लागु प्रावधानों के अनुसार उचित समय पर भेजी जाएगी।

कृते आईएफएल एंटरप्राइजेज लिमिटेड

समद अहमद खान

स्थान: दिल्ली दिनांकः 25-08-2023 डीआईएनः 09527456

स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड रजि. कार्यालयः बी-46, रिट्रीट अपार्टमेंट, 20, आई.पी.एक्सटेंशन,नई दिल्ली-110 092 सीआईएनः U51100DL2012PLC235573 , वेबसाइटः www.stmpl.co.in

ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक की सूचना एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि एमसीए परिपत्र संख्या 02 / 2022 दिनांक 05 मई, 2022 के साथ

पिठत ०८ अप्रैल. २०२० दिनांकित परिपत्र संख्या १४/२०२०; १७/२०२० दिनांक अप्रैल १३, २०२०; 20 / 2020 दिनांक 05 मई. 2020: और 19 / 2021 दिनांक 08 दिसंबर, 2021 और सेबी परिपत्र दिनांक 12 मई, 2020 और 13 मई, 2022 के अनुपालन में स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड (कंपनी) की ग्यारहवीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), सोमवार, 18 सितंबर, 2023 को दोपहर 12:00 बजे. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजअल माध्यमों ("ओएवीएम") से एजीएम के नोटिस में निर्धारित कार्यवाही को निष्पादित करने के लिए सामान्य स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिना आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त एमसीए और सेबी परिपत्रों के अनुपालन में, चूंकि कंपनी के सदस्यों को वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रतियां भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ 11वीं एजीएम की सूचना, शनिवार 26 अगस्त, 2023 को कंपनी के उन सभी सदस्यों को ई–मेल द्वारा भेज दी गई है जिनका नाम शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 को व्यावसायिक घंटों के समापन पर सदस्यों के रिजस्टर में दिखाई देता है और जिनके ईमेल पते कंपनी / कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड / डिपॉजिटरी प्रतिभागी के साथ पंजीकृत हैं। इसके अलावा, उपरोक्त नोटिस और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.stmpl.co.in और स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

बुक बंदीः कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के अनुसार, कंपनी के सदस्यों का रजिस्टर और ट्रांसफर बुक, सोमवार, 11 सितंबर, 2023 से सोमवार, 18 सितंबर, 2022 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगे।

इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप के माध्यम से मतदान— कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 और कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2015 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के प्रावधानों के अनुपालन में, कंपनी 11 सितंबर, 2023(कटऑफ तिथि) तक डिमटेरियलाइज्ड या भौतिक रूप में इक्विटी शेयर रखने वाले अपने सदस्यों को एनएसडीएल द्वारा प्रदान की गई ई-वोटिंग सेवाओं के माध्यम से एजीएम में प्रस्तावित कार्यवाही के संबंध में निम्नलिखित तरीके से इलेक्टॉनिक प्रारूप में अपने वोटिंग अधिकारों का उपयोग करने की सुविधा प्रदान कर रहा है।

• रिमोट ई—वोटिंगः रिमोट ई—वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 15 सितंबर, 2023 को सुबह 9:00 बजे शुरू होगी और रविवार, 17 सितंबर, 2023 को शाम 5:00 बजे समाप्त होगा। उक्त अवधि के बाद रिमोट ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

• एजीएम में ई-वोटिंगः एजीएम में रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उन सदस्यों के लिए भी उपलब्ध होगी,जिन्होंने रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट नहीं डाला है और वीसी/ओएवीएम के माध्यम

इसके अलावा, डीमटेरियलाइज्ड प्रारूप, भौतिक प्रारूप में शेयर रखने वाले सदस्यों और जिन सदस्यों ने अपनी ई–मेल आईडी पंजीकृत नहीं की है, उनके लिए एजीएम में ई–वोटिंग और ई-वोटिंग के तरीके, लॉगिन आईडी से संबंधित निर्देश और प्रक्रिया एवं ई-वोटिंग के लिए पासवर्ड

एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं। कोई भी व्यक्ति, जो नोटिस भेजने के बाद शेयर प्राप्त करता है और कंपनी का सदस्य बन जाता है तथा कट ऑफ तिथि तक शेयर रखता है, वह evoting@cdsl.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि आप ई–वोटिंग के लिए पहले से ही एनएसडीएल के साथ पंजीकृत हैं, तो आप अपना वोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर

आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। जो सदस्य एजीएम की तारीख से पहले ही रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाल चुके हैं, वे भी वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं, लेकिन वे एजीएम में दोबारा वोट करने के हकदार नहीं होंगे।

(क) डीमैट प्रारूप में रखे गए शेयर: कृपया अपने डीपी द्वारा दी गई प्रक्रिया सलाह के अनुसार अपना ई–मेल पता पंजीकृत / अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क करें। सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस में दिए गए सभी नोट्स/निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, जिसमें एजीएम में शामिल होने के निर्देश और एजीएम के दौरान रिमोट ई—वोटिंग / ई—वोटिंग

किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य कंपनी के कंपनी सचिव से cs@stmpl.co.in पर ईमेल द्वारा या कंपनी के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट, स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से ईमेल आईडी grievances@skylinerta.com पर संपर्क कर सकते हैं या 011-40450193 पर कॉल कर सकते हैं।

के माध्यम से वोट डालने के तरीके भी शामिल हैं।

स्थानः नई दिल्ली

दिनांकः 26 अगस्त, 2023

बोर्ड के आज्ञानुसार कृते स्पेक्ट्रम टैलेंट मैनेजमेंट लिमिटेड

हस्ता /-

विदुर गुप्ता प्रबंध निदेशक

www.readwhere.com

रस्तोगी.

1/4, मुछों वाले हनुमान जी मंदिर के पास, बड़ी बामनपूरी,

माप 63.75 वर्ग मीटर, में स्थित तथा निम्नवत परिसीमित है

पूर्व— गली लगभग 8 फुट चौड़ी उसके बाद हरिओम

रस्तोगी का मकान, पश्चिम- मकान के उत्तराधिकारी प्रयाग

ब्याज के साथ, भुगतानयोग्य है, तथा

रु. 2046989.82/- (रुपये बीस लाख

छियालिस हजार नौ सौ नवासी एवं बयासी

पैसे मात्र) जो 07-06-2023 के अनुसार,

वसूली होने तक 17.5% वार्षिक की दर पर

	विवार, अधाहरताबरकर्ता न पूनावाला हाउसिंग फाइनस लिमट्ड (पूर्व म मन्मा हाउसिंग फाइनस लिमट्ड क रूप म आमझात) क उपराक्त							
	नेगमित/पंजीकृत कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियग							
2002	oo2 (यहां इसमें इसके उपरांत ''उक्त अधिनियम'' के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ							
पठित	त उक्त अधिनियम	। की धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत	त, एक मांग र	ाूचना निम्न दिन	गंकित निर्गत की थी, जिसमें निम्न ऋणकताओ			
को ः	सूचना में अंकित	राशि का उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों	के अंदर प्रति	भुगतान करने	को कहा गया था।			
***	कर्तागण राषि का	प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा ऋ	रृणकर्ताओं तथ	ग जनसाधारण	को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्त			
ने य	हां इसमें निम्न 1	वेवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली 20	02 की उक्त	नियमावली के	नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की			
धारा	14 के अंतर्गत	उन्हें प्रदत्त षक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां इसमें निम्नांकित	ा तिथियों पर,	अधिग्रहण कर	े लिया है।			
ऋण	ऋणकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति क							
कोई	कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, एक निर्धारित बकाया राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु पूनावाला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में मैग्मा हाउसिंग							
फाइ	माइनेंस लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) के प्रभाराधीन होगा।							
ऋण	ऋणकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपित्तियों के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओज							
आमंत्रित किया जाता है। अधिग्रहण में ली गई संपत्ति के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं :								
		(1	8 9 8					
큙.	ऋणकर्ताओं	संपत्ति का विवरण	अधग्रहण	संवैधानिक मांग सूचना	मांग सूचना में			
सं.	के नाम		की बिथि		राशि (रु.)			
1.								
1.	मशरफ	उत्तरी भाग के समस्त वह भाग तथा अंश जिसका क्षेत्र मा	4 21.08.2023	07.06.2023	ऋण सं: . HL/0245/H/14/100041			